



# बिहार गजट

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 05 पटना, बुधवार, 12 माघ 1944 (श10)  
1 फरवरी 2023 (ई0)

### विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1— नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-29
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	30-30
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	31-32
पूरक	---
पूरक-क	33-33

# भाग-1

## नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

पटना उच्च न्यायालय

अधिसूचनाएं

14 अक्टूबर 2022

**सं० 413 नि०:**—अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री दिनकर कुमार, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, भागलपुर, श्री प्रणव कुमार भारती, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बेनीपुर (दरभंगा), श्री प्रकाश कुमार राय, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, गया, श्री सौरभ कुमार वर्मा, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, मुंगेर, श्री राजीव कुमार, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, मुजफ्फरपुर (पूर्वी), श्री अरविन्द कुमार सिंह, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पटना, श्री शमीम रजा, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बनमंखी (पूर्णियाँ), श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सहरसा एवं श्री नन्द किशोर, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सोनपुर (सारण) की सेवायें, क्रमशः निबंधक, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्राधिकरण, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णियाँ, सहरसा एवं सारण के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के अधीन, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सौंपी जाती है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,  
रूपेश देव, महानिबंधक।

*The 14<sup>th</sup> October 2022*

**No. 413 A :**—On being relieved of their present assignments, the services of Sri Dinkar Kumar, Sub Judge-cum-ACJM, Bhagalpur, Sri Pranav Kumar Bharti, Sub Judge-cum-ACJM, Benipur (Darbhanga), Sri Prakash Kumar Roy, Sub Judge-cum-ACJM, Gaya, Sri Saurav Kumar Verma, Sub Judge-cum-ACJM, Munger, Sri Rajeev Kumar, Sub Judge-cum-ACJM, Muzaffarpur (East), Sri Arvind Kumar Singh, Sub Judge-cum-ACJM, Patna, Sri Shameem Raja, Sub Judge-cum-ACJM, Banmankhi (Purnea), Sri Brajesh Kumar Tripathi, Sub Judge-cum-ACJM, Saharsa, & Sri Nand Kishore, Sub Judge-cum-ACJM, Sonapur (Saran) are placed at the disposal of the State Government in the Revenue and Land Reforms Department, Govt. of Bihar, Patna on their appointment on deputation basis as Registrar in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority at Bhagalpur, Darbhanga, Gaya, Munger, Muzaffarpur, Patna, Purnea, Saharsa & Saran respectively.

**By Order of the High Court,  
Rupesh Deo, Registrar General.**

2 नवम्बर 2022

**सं० 421 नि०:**—बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या- 7/मुक०-08-08/2022 सा०प्र० 15840 दिनांक 05.09.2022 द्वारा परीक्ष्यमान रूप से असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के रूप में नियुक्त तालिका के स्तम्भ II में उल्लिखित व्यक्तियों को तालिका के स्तम्भ III में उल्लिखित स्थान एवं न्यायमंडल में अस्थायी असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के रूप में पदस्थापित किया जाता है।

क्रम संख्या	पदाधिकारियों का नाम	पदस्थापना का स्थान
1.	2.	3.
1.	श्री मयंक कुमार पाण्डेय	बेगूसराय
2.	श्री आरव जैन	छपरा, सारण

3.	श्री आशीष चन्द्रा	भभुआ, कैमूर
4.	श्री सिद्धार्थ शर्मा	मुजफ्फरपुर (पूर्वी)
5.	श्री संजय कुमार मिश्रा	हाजीपुर, वैशाली
6.	श्री आनन्द राज	छपरा, सारण
7.	श्री सुमित कुमार	मुजफ्फरपुर (पश्चिमी)
8.	अनिता कुमार	आरा, भोजपुर

उच्च न्यायालय के आदेश से,  
रूपेश देव, महानिबंधक।

*The 2<sup>nd</sup> November 2022*

**No. 421 A:—**The person named in column no. 2 of the table given below who have been appointed on probation as Civil Judge (Junior Division) under notification no. 7/Muk.-08-08/2022 Sa.Pra. 15840 dated 05.09.2022 of the Department of General Administration, Government of Bihar, Patna are posted as temporary Civil Judge (Junior Division) at the station mentioned in column no. 3 of the table against their names.

Sl. No.	Name of the Officers	Place of posting
1.	2.	3.
1.	Sri Mayank Kumar Pandey	Begusarai
2.	Sri Aarav Jain	Saran at Chapra
3.	Sri Aashish Chandra	Kaimur at Bhabhua
4.	Sri Siddharth Sharma	Muzaffarpur (East)
5.	Sri Sanjay Kumar Mishra	Vaishali at Hajipur
6.	Sri Anand Raj	Saran at Chapra
7.	Sri Sumit Kumar	Muzaffarpur (West)
8.	Ms. Anita Kumar	Bhojpur at Ara

**By Order of the High Court,**  
**Rupesh Deo, Registrar General.**

**2 नवम्बर 2022**

**सं० 422 नि०:—**बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या- 7/मुक०-०८-०३/२०२१ सा०प्र० 2026 दिनांक 15.02.2022 द्वारा परीक्ष्यमान रूप से असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के रूप में नियुक्त तालिका के स्तम्भ II में उल्लिखित व्यक्ति को तालिका के स्तम्भ III में उल्लिखित स्थान एवं न्यायमंडल में अस्थायी असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के रूप में पदस्थापित किया जाता है।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थान
1.	2.	3.
1.	सुश्री स्वाति चतुर्वेदी	हाजीपुर, वैशाली

उच्च न्यायालय के आदेश से,  
रूपेश देव, महानिबंधक।

The 2<sup>nd</sup> November 2022

**No. 422 A:**—The person named in column no. 2 of the table given below who has been appointed on probation as Civil Judge (Junior Division) under notification no. 7/Muk.-08-03/2021 Sa.Pra. 2026 dated 15.02.2022 of the Department of General Administration, Government of Bihar, Patna is posted as temporary Civil Judge (Junior Division) at the station mentioned in column no. 3 of the table against her name.

Sl. No.	Name of the Officer	Place of posting
1.	2.	3.
1.	Ms. Swati Chaturvedi	Vaishali at Hajipur

**By Order of the High Court,**  
Rupesh Deo, **Registrar General.**

21 नवम्बर 2022

**सं० 431 नि०:**—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को स्तंभ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।

क्रम संख्या	पदाधिकारियों का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	जिला का नाम
1	2	3
1.	श्री सतीश कुमार, मुंसिफ, बनमंखी (पूर्णिया)	पूर्णिया

उच्च न्यायालय के आदेश से,  
रूपेश देव, महानिबंधक।

The 21<sup>st</sup> November 2022

**No. 431 A :**—In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Munsif (Civil Judge, Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1<sup>st</sup> Class also for the district noted against his name in column no. 3 of the table.

Sl. No.	Name of Officers with designation and present place of posting	Name of the District
1	2	3
1.	Sri Saish Kumar, Munsif, Banmankhi (Purnea)	Purnea

**By Order of the High Court,**  
Rupesh Deo, **Registrar General.**

3 दिसम्बर 2022

**सं० 439 नि०:**—श्री अंकुर गुप्ता, विशेष कार्य पदाधिकारी, पटना उच्च न्यायालय, पटना को तत्काल प्रभाव से, माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार, पटना उच्च न्यायालय, पटना का विशेष कार्य पदाधिकारी (न्यायिक पदाधिकारी) नियुक्त किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश से,  
रूपेश देव, महानिबंधक।

The 3<sup>rd</sup> December 2022

**No. 439 A :**—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint Sri Ankur Gupta, Officer on Special Duty, Patna High Court, Patna, as Officer on Special Duty

(Judicial Officer) in the Chief Justice's Secretariat, Patna High Court, Patna with immediate effect.

**By order of Hon'ble the Chief Justice,  
Rupesh Deo, Registrar General.**

21 दिसम्बर 2022

**सं० 464 नि०:**—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोर्ट) को स्तंभ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।

क्रम संख्या	पदाधिकारियों का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	जिला का नाम
1	2	3
1.	श्री लक्ष्मी नाथ, मुंसिफ, बलिया (बेगूसराय)	बेगूसराय

उच्च न्यायालय के आदेश से,  
रूपेश देव, महानिबंधक।

*The 21<sup>st</sup> December 2022*

**No. 464 A :**—In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Munsif (Civil Judge, Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1<sup>st</sup> Class also for the district noted against his name in column no. 3 of the table.

Sl. No.	Name of Officers with designation and present place of posting	Name of the District
1	2	3
1.	Sri Lakshmi Nath, Munsif, Ballia (Begusarai)	Begusaai

**By Order of the High Court,  
Rupesh Deo, Registrar General.**

22 दिसम्बर 2022

**सं० 465 नि०:**—श्री राम कृष्ण पाठक, संयुक्त निबंधक—सह—प्रमुख निजी सचिव, माननीय मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय, पटना, की सेवा को लोकहित में माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार तीन महीने या जैसा आदेश हो, के लिए विस्तारित किया जाता है। श्री पाठक न्यायालय के अधिसूचना संख्या 397 नि० दिनांक 29.09.2022 के द्वारा पहले से ही सेवा विस्तार पर हैं।

माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश से,  
रूपेश देव, महानिबंधक।

*The 22<sup>nd</sup> December 2022*

**No. 465 A :**—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to extend the service of Sri Ram Krishna Pathak, Joint Registrar-cum-Principal Private Secretary to Hon'ble the Chief Justice of the Court for further three months or directed otherwise in the public interest, Sri Pathak is already on extension vide Court's notification no. 397A dated 29.09.2022.

**By order of Hon'ble the Chief Justice,  
Rupesh Deo, Registrar General.**

22 दिसम्बर 2022

सं० 466 नि० :—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पदाधिकारियों को, तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित स्थान एवं स्तम्भ 4 में दी गयी स्थानान्तरण श्रृंखला के अन्तर्गत जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य हेतु स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान ।	स्थान का नाम जहाँ पदाधिकारी स्थानांतरित किए गए ।	स्थानान्तरण श्रृंखला
1.	2.	3.	4.
1.	श्री कृष्ण कांत त्रिपाठी, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, औरंगाबाद ।	बांका	स्थानांतरित श्री देवराज त्रिपाठी के स्थान पर।
2.	श्री शिव गोपाल मिश्रा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भागलपुर ।	मधेपुरा	स्थानांतरित श्री रमेश चंद मालवीय के स्थान पर जिन्हें विधि सचिव, विधि विभाग, बिहार सरकार, पटना के रूप में पदस्थापन की अनुशंसा की गई है।
3.	श्री देवराज त्रिपाठी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बांका ।	पूर्वी चम्पारण स्थित मोतिहारी	श्री परशुराम सिंह के स्थान पर जो दिनांक 31.12.2022 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
4.	श्री राजेश कुमार-III प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कैमूर, भभुआ ।	सीतामढ़ी	रिक्त
5.	श्री राकेश मालवीय निदेशक, बिहार न्यायिक अकादमी, पटना ।	गोपालगंज	रिक्त
6.	श्री दीपांकर पाण्डेय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पूर्णियाँ ।	मुंगेर	श्री अशोक कुमार पाण्डेय के स्थान पर जिन्हें निदेशक, बिहार न्यायिक अकादमी, पटना के रूप में स्थानान्तरण हेतु अनुशंसा की गई है।
7.	श्री पुरुषोत्तम मिश्रा प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बक्सर ।	नवादा	श्री राजेश नारायण सेवक पाण्डेय के स्थान पर जिनका स्थानांतरण की अनुशंसा सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधि सेवा प्राधिकार, पटना के रूप में की गई है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,  
रूपेश देव, महानिबंधक।

The 22<sup>nd</sup> December 2022

No. 466 A :—The following Officers named in column no. 2 of the table given below are hereby transferred and posted as District and Sessions Judges at the stations mentioned in column no. 3 of the table against their respective names and in chain as indicated in column no. 4 of the table given below :

Sl. No.	Name of the Officers with designation and present place of posting.	Name of the station where the officer has been transferred.	Chain of Transfer
1.	2.	3.	4.
1.	Sri Krishna Kant Tripathi Principal Judge, Family Court, Aurangabad	Banka	Vice Sri Devraj Tripathi, since transferred.

2.	Sri Shiv Gopal Mishra District and Sessions Judge, Bhagalpur	Madhepura	Vice Sri Ramesh Chand Malviya, recommended for transfer and posting as Law Secretary-cum-Legal Remembrancer, Law Department, Govt. of Bihar, Patna.
3.	Sri Devraj Tripathi District and Sessions Judge, Banka	East Champaran at Motihari	Vice Sri Parshuram Singh Yadav, who is going to retire on 31.12.2022.
4.	Sri Rajesh Kumar-III Principal Judge, Family Court, Kaimur at Bhabhua	Sitamarhi	Since Vacant
5.	Sri Rakesh Malviya Director, Bihar Judicial Academy, Patna	Gopalganj	Since Vacant
6.	Sri Dipankar Pandey Principal Judge, Family Court, Purnea	Munger	Vice Sri Ashok Kumar Pandey, recommended for transfer and posting as Director, Bihar Judicial Academy, Patna.
7.	Sri Purushottam Mishra Principal Judge, Family Court, Buxar	Nawadah	Vice Sri Rajesh Narayan Sewak Pandey recommended for posting as Member Secretary, Bihar State Legal Service Authority, Patna

**By order of the High Court,  
Rupesh Deo, Registrar General.**

22 दिसम्बर 2022

सं० 468 नि०:—श्री रुपेश देव, महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना को भागलपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,  
अनामिका टी., निबंधक (स्थापना)।

**The 22<sup>nd</sup> December 2022**

**No. 468A :—**Sri Rupesh Deo, Registrar General, Patna High Court, Patna is transferred and posted as District and Sessions Judge of Bhagalpur vice Sri Shiv Gopal Mishra, since transferred.

**By order of the High Court**  
**Anamika T., Registrar (Establishment).**

22 दिसम्बर 2022

सं० 469 नि० :—सुश्री अनामिका टी., निबंधक (स्थापना), पटना उच्च न्यायालय, पटना को मधुबनी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,  
रुपेश देव, महानिबंधक।

**The 22<sup>nd</sup> December 2022**

**No. 469A :—**Ms. Anamika T., Registrar (Establishment), Patna High Court, Patna is transferred and posted as District and Sessions Judge, Madhubani.

**By order of the High Court,**  
**Rupesh Deo, Registrar General.**

23 दिसम्बर 2022

सं० 471 नि० :—निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को, तालिका के स्तंभ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के रूप में कार्य करने हेतु स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित।	अ) नए स्थान का पदनाम ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ स्थानांतरित किये गये हैं
1.	श्री पुनित कुमार गर्ग अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर (मुजफ्फरपुर)	अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब) सासाराम स) रोहतास
2.	श्री अजय कुमार शर्मा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आरा (भोजपुर)	अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब) सीवान स) सीवान
3.	श्री अनुज कुमार जैन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हाजीपुर (वैशाली)	अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब) नवादा स) नवादा
4.	श्री अभिषेक कुमार दास अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अररिया (अररिया)	अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब) छपरा स) सारण
5.	श्री राजेश कुमार बच्चन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सासाराम (रोहतास)	अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब) शिवहर स) शिवहर
6.	श्री संतोष कुमार तिवारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नवादा (नवादा)	अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब) भभुआ स) कैमूर
7.	श्री रोहित शंकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भागलपुर (भागलपुर)	अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब) पूर्णियाँ स) पूर्णियाँ



8.	श्री हम्बीर सिंह बघेल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दरभंगा (दरभंगा)	अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब) भागलपुर स) भागलपुर
9.	श्री सतीश कुमार देव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जहानाबाद (जहानाबाद)	अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब) गया स) गया
10.	श्री प्रणव कुमार झा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, समस्तीपुर (समस्तीपुर)	अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब) गोपालगंज स) गोपालगंज
11.	श्री आशुतोष कुमार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधुबनी (मधुबनी)	अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब) गोपालगंज स) गोपालगंज
12.	श्री दिनेश कुमार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोपालगंज (गोपालगंज)	अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब) भागलपुर स) भागलपुर
13.	श्री मुंशी लाल गौतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेगूसराय (बेगूसराय)	अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब) सासाराम स) रोहतास
14.	श्री प्रमोद कुमार यादव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खगड़िया (खगड़िया)	अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब) बेतिया स) पश्चिमी चम्पारण
15.	श्री अनिल कुमार मिश्रा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेर (मुंगेर)	अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब) मधुबनी स) मधुबनी
16.	श्री राजेश कुमार शुक्ला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भभुआ (कैमूर)	अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब) बेतिया स) पश्चिमी चम्पारण
17.	श्री रामायण राम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीवान (सीवान)	अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब) भभुआ स) कैमूर
18.	श्री सईद मो० फजलूल बारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीतामढ़ी (सीतामढ़ी)	अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब) मधुबनी स) मधुबनी
19.	श्री राज नारायण निगम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेतिया (पश्चिमी चम्पारण)	अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब) बेगूसराय स) बेगूसराय
20.	श्री दीपक कुमार-I अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गया (गया)	अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब) शेरघाटी (दिनांक 03.01.2023 से) स) गया
21.	श्री निशीकांत ठाकुर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधेपुरा (मधेपुरा)	अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब) सुपौल स) सुपौल
22.	श्री विकास सिंह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सहरसा (सहरसा)	अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब) सुपौल स) सुपौल
23.	श्री नवीन कुमार ठाकुर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल (सुपौल)	अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब) हाजीपुर स) वैशाली
24.	श्रीमती प्रतिभा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहारशरीफ (नालन्दा)	अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब) सीवान स) सीवान

25.	श्री संजय कुमार- IV अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल (सुपौल)	अ) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार ब) लखीसराय स) लखीसराय
26.	श्री अविनाश कुमार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बगहा (पश्चिमी चम्पारण)	अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब) पटना स) पटना
27.	श्री आशीष मिश्रा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधेपुरा (मधेपुरा)	अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब) बगहा स) पश्चिमी चम्पारण

उच्च न्यायालय के आदेश से,  
रूपेश देव, महानिबंधक।

*The 23<sup>rd</sup> December 2022*

**No. 471 A :—**The Additional District and Sessions Judges, named in column no. 2 of the table given below are hereby transferred and posted as Additional District and Sessions Judges / Secretary, District Legal Services Authority in the Judgeship to be stationed ordinarily at the places mentioned in column no. 3 of the table against their respective names :

Sl. No.	Name of the Officers with designation and present place of posting with Judgeship.	(a) Designation at the new station (b) Place where the officer is to be ordinarily stationed at (c) Name of the Judgeship in which posted on transfer
1.	2.	3.
1.	Sri Puneet Kumar Garg Additional District & Sessions Judge, Muzaffarpur (Muzaffarpur)	(a) Additional District & Sessions Judge (b) Sasaram (c) Rohtas
2.	Sri Ajay Kumar Sharma Additional District & Sessions Judge, Ara (Bhojpur)	(a) Additional District & Sessions Judge (b) Siwan (c) Siwan
3.	Sri Anuj Kumar Jain Additional District & Sessions Judge, Hajipur (Vaishali)	(a) Additional District & Sessions Judge (b) Nawadah (c) Nawadah
4.	Sri Abhishek Kumar Das Additional District & Sessions Judge, Araria (Araria)	(a) Additional District & Sessions Judge (b) Chapra (c) Saran
5.	Sri Rajesh Kumar Bachchan Additional District & Sessions Judge, Sasaram (Rohtas)	(a) Additional District & Sessions Judge (b) Sheohar (c) Sheohar
6.	Sri Santosh Kumar Tiwary Additional District & Sessions Judge, Nawada (Nawada)	(a) Additional District & Sessions Judge (b) Bhabhua (c) Kaimur
7.	Sri Rohit Shankar Additional District & Sessions Judge, Bhagalpur (Bhagalpur)	(a) Additional District & Sessions Judge (b) Purnea (c) Purnea
8.	Sri Hambir Singh Baghel Additional District & Sessions Judge, Darbhanga (Darbhanga)	(a) Additional District & Sessions Judge (b) Bhagalpur (c) Bhagalpur

9.	Sri Satish Kumar Deo Additional District & Sessions Judge, Jehanabad (Jehanabad)	(a) Additional District & Sessions Judge (b) Gaya (c) Gaya
10.	Sri Pranav Kumar Jha Additional District & Sessions Judge, Samastipur (Samastipur)	(a) Additional District & Sessions Judge (b) Gopalganj (c) Gopalganj
11.	Sri Ashutosh Kumar Additional District & Sessions Judge, Madhubani (Madhubani)	(a) Additional District & Sessions Judge (b) Gopalganj (c) Gopalganj
12.	Sri Dinesh Kumar Additional District & Sessions Judge, Gopalganj (Gopalganj)	(a) Additional District & Sessions Judge (b) Bhagalpur (c) Bhagalpur
13.	Sri Munshi Lal Gautam Additional District & Sessions Judge, Begusarai (Begusarai)	(a) Additional District & Sessions Judge (b) Sasaram (c) Rohtas
14.	Sri Pramod Kumar Yadav Additional District & Sessions Judge, Khagaria (Khagaria)	(a) Additional District & Sessions Judge (b) Bettiah (c) West Champaran
15.	Sri Anil Kumar Mishra Additional District & Sessions Judge, Munger (Munger)	(a) Additional District & Sessions Judge (b) Madhubani (c) Madhubani
16.	Sri Rajesh Kumar Shukla Additional District & Sessions Judge, Bhabhua (Kaimur)	(a) Additional District & Sessions Judge (b) Bettiah (c) West Champaran
17.	Sri Ramayan Ram Additional District & Sessions Judge, Siwan (Siwan)	(a) Additional District & Sessions Judge (b) Bhabhua (c) Kaimur
18.	Sri Syed Md. Fazlul Bari Additional District & Sessions Judge, Sitamarhi (Sitamarhi)	(a) Additional District & Sessions Judge (b) Madhubani (c) Madhubani
19.	Sri Raj Narain Nigam Additional District & Sessions Judge, Bettiah (West Champaran)	(a) Additional District & Sessions Judge (b) Begusarai (c) Begusarai
20.	Sri Deepak Kumar-I Additional District & Sessions Judge, Gaya (Gaya)	(a) Additional District & Sessions Judge (b) Sherghati (w.e.f. 03.01.2023) (c) Gaya
21.	Sri Nishikant Thakur Additional District & Sessions Judge, Madhepura (Madhepura)	(a) Additional District & Sessions Judge (b) Supaul (c) Supaul
22.	Sri Vikash Singh Additional District & Sessions Judge, Saharsa (Saharsa)	(a) Additional District & Sessions Judge (b) Supaul (c) Supaul
23.	Sri Navin Kumar Thakur Additional District & Sessions Judge, Supaul (Supaul)	(a) Additional District & Sessions Judge (b) Hajipur (c) Vaishali
24.	Ms. Pratibha Additional District & Sessions Judge, Biharsharif (Nalanda)	(a) Additional District & Sessions Judge (b) Siwan (c) Siwan

25.	Sri Sanjay Kumar-IV Additional District & Sessions Judge, Supaul (Supaul)	(a) Secretary, District Legal Service Authority (b) Lakhisarai (c) Lakhisarai
26.	Sri Avinash Kumar Additional District & Sessions Judge, Bagaha (West Champaran)	(a) Additional District & Sessions Judge (b) Patna (c) Patna
27.	Sri Ashish Mishra Additional District & Sessions Judge, Madhepura (Madhepura)	(a) Additional District & Sessions Judge (b) Bagaha (c) West Champaran

**By Order of the High Court,  
Rupesh Deo, Registrar General.**

**23 दिसम्बर 2022**

**सं० 470 नि०:—**निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) के न्यायिक पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए, उसी तालिका के स्तम्भ-3 में उनके नाम के सामने उल्लिखित जजी एवं स्थान जहाँ पर वे साधारणतः अधिष्ठित रहेंगे, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया जाता है।

पुनः, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय स्तम्भ-3 में नामित असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) के न्यायिक पदाधिकारियों को उनके पदस्थापन के जिला के क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है, बशर्तें उनके द्वारा निष्पादित दिवानी तथा आपराधिक वादों की संख्या 30:70 के अनुपात में हो।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	अ) नये स्थान पर पदनाम ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी/स्थान जहाँ स्थानांतरण के उपरांत नियुक्त किये जाते हैं।
1.	श्री राजीव कुमार मिश्रा अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पूर्णियाँ।	(अ) अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) लखीसराय (स) लखीसराय
2.	श्री संतोष कुमार-II अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, औरंगाबाद।	(अ) अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) सहरसा (स) सहरसा
3.	श्री कुमार अविनाश, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नवादा।	(अ) अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) सहरसा (स) सहरसा
4.	श्री धीरेन्द्र कुमार पाण्डेय, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बेगूसराय।	(अ) अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) नवादा (स) नवादा
5.	श्री माधवेन्द्र सिंह, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल (जहानाबाद)।	(अ) अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) दरभंगा (स) दरभंगा
6.	श्री संतोष कुमार दूबे, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, खगड़िया।	(अ) अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) सुपौल (स) सुपौल
7.	सुश्री सारिका वहालिया, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सीवान।	(अ) अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) पटना (स) पटना
8.	श्री तेज प्रताप सिंह अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, मधेपुरा।	(अ) अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) कटिहार (स) कटिहार

9.	सुश्री जबीन जमाल अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, कटिहार।	(अ) अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) आरा (स) भोजपुर
10.	श्री अरुण कुमार सिन्हा अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, लखीसराय।	(अ) अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) मोतिहारी (स) पूर्वी चम्पारण
11.	श्री अखिलेश पाण्डेय अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, मुंगेर।	(अ) अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) कटिहार (स) कटिहार
12.	श्री राजेश कुमार-IV अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, शेखपुरा।	(अ) अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) मधेपुरा (स) मधेपुरा
13.	श्री दिव्य प्रकाश अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पूर्णियाँ।	(अ) अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) लखीसराय (स) लखीसराय
14.	श्री कविन्द्र कुमार अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सुपौल।	(अ) अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) जगदीशपुर (स) भोजपुर
15.	श्री विक्रम कुमार अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सीतामढ़ी।	(अ) अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) पूर्णियाँ (स) पूर्णियाँ
16.	सुश्री स्मिता राज अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, हाजीपुर (वैशाली)।	(अ) अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) दरभंगा (स) दरभंगा

उच्च न्यायालय के आदेश से,  
रूपेश देव, महानिबंधक।

*The 23<sup>rd</sup> December 2022*

**No. 470 A :—**The Judicial Officers of the cadre of Civil Judge (Senior Division), named in column no. 2 of the table given below are transferred and posted as Sub Judge-cum-A.C.J.M. in the Judgeship to be stationed ordinarily at the station mentioned against their name in column no. 3 of the table.

Further, in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section (11) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court is pleased to confer upon the Officers named below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1<sup>st</sup> Class for the concerned District, provided that they will work in such a way that their disposal of Civil and Criminal matters must be in the ratio of 30:70.

Sl. No.	Name of the officer, designation and present place of posting	(a) Designation at the new station (b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily (c) Name of the Judgeship in which transferred
1	2	3
01.	Sri Rajeev Kumar Mishra Sub Judge-cum-A.C.J.M., Purnea	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Lakhisarai c) Lakhisarai
02.	Sri Santosh Kumar-II Sub Judge-cum-A.C.J.M., Aurangabad	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Saharsa c) Saharsa
03.	Sri Kumar Avinash Sub Judge-cum-A.C.J.M., Nawada	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Saharsa c) Saharsa

04.	Sri Dharendra Kumar Pandey Sub Judge-cum-A.C.J.M., Begusarai	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Nawada c) Nawada
05.	Sri Madhwendra Singh Sub Judge-cum-A.C.J.M., Arwal (Jehanabad)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Darbhanga c) Darbhanga
06.	Sri Santosh Kumar Dubey Sub Judge-cum-A.C.J.M., Khagaria	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Supaul c) Supaul
07.	Ms. Sarika Vahalia Sub Judge-cum-A.C.J.M., Siwan	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Patna c) Patna
08.	Sri Tej Pratap Singh Sub Judge-cum-A.C.J.M., Madhepura	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Katihar c) Katihar
09.	Ms. Jabin Jamal Sub Judge-cum-A.C.J.M., Katihar	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Ara c) Bhojpur
10.	Sri Arun Kumar Sinha Sub Judge-cum-A.C.J.M., Lakhisarai	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Motihari c) East Champaran
11.	Sri Akhilesh Pandey Sub Judge-cum-A.C.J.M., Munger	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Katihar c) Katihar
12.	Sri Rajesh Kumar-IV Sub Judge-cum-A.C.J.M., Sheikhpura	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Madhepura c) Madhepura
13.	Sri Dibya Prakash Sub Judge-cum-A.C.J.M., Purnea	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Lakhisarai c) Lakhisarai
14.	Sri Kavindra Kumar Sub Judge-cum-A.C.J.M., Supaul	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Jagdishpur c) Bhojpur
15.	Sri Vikram Kumar Sub Judge-cum-A.C.J.M., Sitamarhi	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Purnea c) Purnea
16.	Ms. Smita Raj Sub Judge-cum-A.C.J.M., Hajipur (Vaishali)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Darbhanga c) Darbhanga

**By Order of the High Court,  
Rupesh Deo, Registrar General.**

23 दिसम्बर 2022

**सं० 472 नि.:**—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित अवर न्यायाधीश श्रेणी के न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश-वरीय कोर्ट) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जजी एवं स्थान जहाँ पर वे साधारणतः अधिष्ठित रहेंगे अवर न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है।

तदोपरान्त, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित अवर न्यायाधीश को स्तम्भ-4 में उल्लिखित उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

साथ ही उपर्युक्त संहिता की धारा 12 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त पदाधिकारी को तालिका के स्तम्भ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी को उनके नाम के सामने स्तम्भ-4 में अंकित सत्र प्रमण्डल के लिए सहायक सत्र न्यायाधीश भी नियुक्त किया जाता है।

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान (जजी सहित)	अ) नये स्थान पर पदनाम ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी/स्थान जहाँ स्थानांतरण के उपरांत नियुक्त किये जाते हैं	जिला एवं सत्र प्रमण्डल का नाम
1	2	3	4
1.	श्री दीपक सिंह वर्मा अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, कटिहार।	अ) अवर न्यायाधीश-सह-मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, ब) गोपालगंज स) गोपालगंज	गोपालगंज

उच्च न्यायालय के आदेश से,  
रूपेश देव, महानिबंधक।

*The 23<sup>rd</sup> December 2022*

**No. 472 A :—**The Judicial officer of the rank of Sub Judge (Civil Judge, Senior Division), named in column no. 2 of the table given below, is transferred as Subordinate Judge in the Judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned against his name in Column No. 3 of the table.

Further, in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act-2 of 1974), the High Court is pleased to confer upon the Civil Judge (Senior Division) named in column no. 2 of the table, the powers of a Judicial Magistrate of the first Class for the District noted against his respective names in column no. 4 of the table.

Furthermore, in exercise of the powers conferred under Sub Section (1) of Section 12 of the said Criminal Procedure Code the officer is also appointed as Chief Judicial Magistrate for the District noted against his name in column no. 4 of the table and in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court is also pleased to appoint the Judicial Officer named in column-2 of the table as Assistant Sessions Judge for the Sessions Division noted against his name in column-4 of the table.

Sl. No.	Name of the officer with designation and present place of posting (with Judgeship)	(a) Designation at the new station/place (b) Place where the officer is to be ordinarily stationed at (c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer	Name of the District and Sessions Division.
1	2	3	4.
1.	Sri Deepak Singh Verma Sub Judge-I-cum-A.C.J.M., Katihar	a) Sub Judge-cum-C.J.M. b) Gopalganj c) Gopalganj	Gopalganj

**By Order of the High Court,  
Rupesh Deo, Registrar General.**

**23 दिसम्बर 2022**

**सं० 474 नि०:**—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को स्तम्भ-4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

क्रम संख्या	पदाधिकारियों का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ स्थानांतरण के उपरांत नियुक्त किए गये हैं।	जिला का नाम
1	2	3	4
1	श्री राजेश कुमार सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, शिवहर।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) बांका स) बांका	बांका
2.	श्री कुमार सौरभ, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी —अपर मुंसिफ, रक्सौल, मोतिहारी।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) सीवान स) सीवान	सीवान
3.	श्री अजयेन्द्र कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मोतिहारी।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) भभुआ स) कैमूर	कैमूर
4.	कुमारी रिकु, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी —अपर मुंसिफ, सीवान।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) पटना स) पटना	पटना
5.	सोनम रानी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी —अपर मुंसिफ, बेतिया।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) डेहरी स) रोहतास	रोहतास
6.	प्रेरणा शिल्पा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी —अपर मुंसिफ, बेतिया।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) पटना स) पटना	पटना

उच्च न्यायालय के आदेश से,  
रूपेश देव, महानिबंधक।



*The 23<sup>rd</sup> December 2022*

No. 474 A :—The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below are appointed as Judicial Magistrate in the Judgeship and station mentioned in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the officers named below, the powers of Judicial Magistrate 1<sup>st</sup> Class for the district noted against their names in column no. 4 of the table.

Sl. No.	Name of the Officers with designation and present place of posting	(a) Designation at the new station (b) Place where the Officer is to be ordinarily stationed at. (c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer.	Name of the District
1.	2.	3.	4.
1.	Sri Rajesh Kumar Singh, J.M. I, Sheohar	(a) Judicial Magistrate (b) Banka (c) Banka	Banka
2.	Sri Kumar Saurabh, J.M. I-cum-A.M., Raxual at Motihari	(a) Judicial Magistrate (b) Siwan (c) Siwan	Siwan
3.	Sri Ajayendra Kumar, J.M. I, Motihari	(a) Judicial Magistrate (b) Bhabhua (c) Kaimur	Kaimur
4.	Ms. Kumari Rinku, J.M. I-cum-A.M., Siwan	(a) Judicial Magistrate (b) Patna (c) Patna	Patna
5.	Ms. Sonam Rani, J.M. I-cum-A.M., Bettiah	(a) Judicial Magistrate (b) Dehri (c) Rohtas	Rohtas
6.	Ms. Prerna Shilpa, J.M. I-cum-A.M., Bettiah	(a) Judicial Magistrate (b) Patna (c) Patna	Patna

**By Order of the High Court,  
Rupesh Deo, Registrar General.**

**23 दिसम्बर 2022**

**सं० 477 नि०:**—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित असेैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को स्तंभ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान	जिला का नाम
1	2	3
1.	खुशबू आनंद, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, नवादा।	नवादा

उच्च न्यायालय के आदेश से,  
रूपेश देव, महानिबंधक।

The 23<sup>rd</sup> December 2022

**No. 477 A:**—In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of Judicial Magistrate of the 1<sup>st</sup> Class for the District noted against their name in column no. 3 of the table.

Sl. No.	Name of the Officer with designation and present place of posting.	Name of the District
1	2	3
9.	Ms. Khushboo Anand, J.M. 2 <sup>nd</sup> Class, Nawada	Nawada

By Order of the High Court,  
Rupesh Deo, Registrar General.

26 दिसम्बर 2022

**सं० 479 नि०:**—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोर्ट) के न्यायिक पदाधिकारी को स्थानांतरित करते हुए, उसी तालिका के स्तम्भ-3 में उनके नाम के सामने उल्लिखित जजी एवं स्थान जहाँ पर वे साधारणतः अधिष्ठित रहेंगे, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया जाता है। पुनः, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय स्तम्भ-3 में नामित असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोर्ट) के न्यायिक पदाधिकारी को उनके पदस्थापन के जिला के क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है, बशर्ते उनके द्वारा निष्पादित दिवानी तथा आपराधिक वादों की संख्या 30:70 के अनुपात में हो।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	अ) नये स्थान पर पदनाम ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी/स्थान जहाँ स्थानांतरण के उपरांत नियुक्त किये जाते हैं।
1.	सुश्री जबीन जमाल अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, कटिहार।	(अ) अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) पटना (स) पटना

उपलिखित पदाधिकारी के स्थानांतरण एवं पदस्थापन से संबंधित इस न्यायालय की अधिसूचना संख्या 470 नि० दिनांक 23.12.2022, जोकि ज्ञापांक संख्या 78037-78033 दिनांक 23.12.2022 के अन्तर्गत निर्गत किया गया था, उक्त हद तक संशोधित की जाती है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,  
रामाकान्त, प्र० महानिबंधक।

The 26<sup>th</sup> December 2022

**No. 479 A :**—The Judicial Officer of the cadre of Civil Judge (Senior Division), named in column no. 2 of the table given below is transferred and posted as Sub Judge-cum-A.C.J.M. in the Judgeship to be stationed ordinarily at the station mentioned against her name in column no. 3 of the table.

Further, in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section (11) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court is pleased to confer upon the Officer named below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1<sup>st</sup>

Class for the concerned District, provided that she will work in such a way that his disposal of Civil and Criminal matters must be in the ratio of 30:70.

Sl. No.	Name of the officer, designation and present place of posting	(a) Designation at the new station (b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily (c) Name of the Judgeship in which transferred
1	2	3
1.	Ms. Jabin Jamal Sub Judge-cum-A.C.J.M., Katihar	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Patna c) Patna

The Court's **Notification No. 470 A dated 23.12.2022** issued vide Mo No. **78037-78083 dated 23.12.2022** so far as it relates to transfer and posting of the aforementioned officer **stands modified** to the above extent.

**By Order of the High Court,**  
Ramakant, **Registrar General-I/C.**

26 दिसम्बर 2022

**सं० 480 नि०**—श्री गौरव कमल, विशेष कार्य पदाधिकारी (कंप्यूटराइजेशन), पटना उच्च न्यायालय, पटना को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से, माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार, पटना उच्च न्यायालय, पटना का प्रभारी निबंधक (आई.टी.) —सह—सी.पी.सी. नियुक्त किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश से,  
रामाकान्त, प्रभारी महानिबंधक।

*The 26<sup>th</sup> December 2022*

**No. 480 A** :—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint Sri Gaurav Kamal, Officer on Special Duty (Computerization), Patna High Court, Patna as I/C Registrar (IT)-cum-CPC, Patna High Court, Patna with effect from the date he assumes charge of his office.

**By order of the Court,**  
Ramakant, **Registrar General I/C.**

26 दिसम्बर 2022

**सं० 481 नि०**—सबा आलम, विशेष कार्य पदाधिकारी, पटना उच्च न्यायालय, पटना को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से, माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार, पटना उच्च न्यायालय, पटना का श्री गौरव कमल के स्थान पर, विशेष कार्र पदाधिकारी (कंप्यूटराइजेशन) नियुक्त किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश से,  
रामाकान्त, प्रभारी महानिबंधक।

*The 26<sup>th</sup> December 2022*

**No. 481 A** :—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint Ms. Saba Alam, Officer on Special Duty, Patna High Court, Patna as Officer on Special Duty (Computerization), Patna High Court, Patna with effect from the date she assumes charge of her office vice Sri Gaurav Kamal.

**By order of the Court,**  
Ramakant, **Registrar General I/C.**

22 दिसम्बर 2022

**सं० 467 नि०**—श्री रुद्र प्रकाश मिश्रा, सचिव—सह—विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार सरकार, पटना उच्च न्यायालय, पटना को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार श्री रुपेश देव के स्थान पर, महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय नियुक्त किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,  
रुपेश देव, महानिबंधक।

The 22<sup>nd</sup> December 2022

**No. 467 A** :—Hon'ble Court have been pleased to appoint Sri Rudra Prakash Mishra, Secretary-cum-Legal Remembrancer, Law Department, Government of Bihar, Patna as Registrar General, Patna High Court, Patna with effect from the date he assumes charge of his office vice Sri Rupesh Deo.

By Order of the High Court,  
Rupesh Deo, Registrar General.

2 जनवरी 2023

**सं० 482 नि०** :—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोर्टि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर मुंसिफ एवं उच्च न्यायालय द्वारा दंडाधिकारी की आवश्यक शक्तियाँ प्रदान किये जाने पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार, बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट बिहार एमेंडमेंट ऐक्ट-2013 (ऐक्ट XIV, 2014) द्वारा संबोधित बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, 1887 (ऐक्ट XII, 1887) की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उक्त तालिका के स्तम्भ-4 में यथानिर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर होने वाले मौलिक वादों की साधारण प्रक्रिया के अधीन निष्पादन की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

सम्बन्धित पदाधिकारी को उसी स्तम्भ-4 में निर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकारी के अन्दर लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय वादों के निष्पादन के लिए ऐसे न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

स्तम्भ-4 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग तबतक नहीं किया जाय जबतक कि वे बिहार राज्य पत्र या जिला राज्यपत्र में अधिसूचित न हो जायें।

क्रम संख्या I	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित	अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहा नियुक्त कि गये हैं	नये स्थान पर अधिकारियों को प्रदान की गयी विशेष शक्तियाँ अ) बंगाल, आगरा एण्ड आसाम सिविल कोर्ट ऐक्ट के अंतर्गत (साधारण प्रक्रिया) ब) प्रोविन्सीयल स्मॉल कोजेज कोर्ट्स ऐक्ट 1987 के अंतर्गत
1	2	3	4
1.	श्री सुमित कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी,—सह—अपर मुंसिफ, बेतिया (पश्चिमी चम्पारण)	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोर्टि) ब) नरकटीयागंज स) पश्चिमी चम्पारण	अ) नरकटीयागंज मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 1,50,000 /— रुपये तक ब) नरकटीयागंज मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 1000 /— रुपये तक लघुवाद की शक्तियाँ

उच्च न्यायालय के आदेश से,  
रुपेश देव, महानिबंधक।

The 2<sup>nd</sup> January 2023

**No. 482A** :—The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is transferred and posted as Munsif in the judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned in column no. 3 of the table.

As mentioned in column no. 4, the officer is also vested with the powers under Sub-Section (2) of Section-19 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Acts, 1887, (Act XII of 1887) as amended by the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Bihar

Amendment Act, 2013 (Act 14 of 2014) to try under ordinary procedure original suits of Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

As further mentioned in column no. 4, the officer is also vested with powers of the Court of small causes for the trial of suits cognizable by such a Court with the necessary Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

The powers vested as per column no. 4, should not, however, be exercised by the officer concerned unless it is published in the Bihar Gazette or in the District Gazette.

Sl. No.	Name of the Officer with designation and present place of posting	1. Designation at the new station 2. Place where the officer is to be ordinarily stationed at. 3. Name of the Judgeship in which appointed on transfer.	Special Power with which the Officer is vested at the new station 1. Under the Bengal, Agra and Assam Civil Court Acts (under ordinary procedure). 2. Under the provincial small causes Courts Act, 1987
1	2	3	4
1	Sri Sumit Kumar, J.M. 1 <sup>st</sup> Class-cum-Addl. Munsif, Bettiah (West Champaran)	(a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) (b) Narkatiyaganj (c) West Champaran	(a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Narkatiyaganj Munsifi. (b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Narkatiyaganj Munsifi.

By Order of the High Court,  
Rupesh Deo, Registrar General.

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

3 जनवरी 2023

सं० वन विविध-01/2011-23/प०व०ज०प०-विभागीय अधिसूचना संख्या-385 दिनांक-05.02.2014 को विलोपित करते हुए बिहार राज्य मुकदमा नीति 2011(बिहार स्टेट लिटिगेशन पौलिसी 2011) की कंडिका-2.1 के तहत विभाग में विधिक मामलों में अनुश्रवण एवं प्रभावकारी प्रबंधन/शिकायत निवारण समिति हेतु श्री धीरेन्द्र पासवान, संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को विभाग के लिए नोडल पदाधिकारी मनोनित किया जाता है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
पूनम कुमारी, उप-सचिव।

परिवहन विभाग

अधिसूचना

20 जनवरी 2023

सं० 04/STA-(विविध)-30/2016(खण्ड),परि०-376-मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68 की उपधारा-(3)(c-a)के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या-836, दिनांक-05.02.2018, अधिसूचना संख्या-709, दिनांक-23.01.2019, अधिसूचना संख्या-8961, दिनांक-31.12.2020, अधिसूचना संख्या-860, दिनांक-08.02.2021, अधिसूचना संख्या-5281,

दिनांक-25.08.2021, अधिसूचना संख्या-6447, दिनांक-11.10.2021, अधिसूचना संख्या-1274, दिनांक-24.02.2022 एवं अधिसूचना संख्या-1459, दिनांक-02.03.2022 द्वारा अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किया गया है।

अधिसूचना संख्या-836, दिनांक-05.02.2018 की कंडिका-2 के आलोक में पूर्व में अधिसूचित अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों के अतिरिक्त अनुलग्नक-क(vii) के रूप में कुल 80 (अस्सी) नये अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित करते हुए सम्मिलित किया जाता है।

शेष यथावत रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
(ह0) अस्पष्ट, उप-सचिव।

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68(3)(c-a) के अनुपालन में चिह्नित किये गये अतिरिक्त अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों की सूची :-							
क्र0	रूट कोड	अप ट्रीप मार्ग का नाम	अप ट्रीप मार्ग का भाया	डाउन ट्रीप मार्ग का नाम	डाउन ट्रीप मार्ग का भाया	मार्ग की दूरी (कि०मी०)	अभियुक्ति
1	5347	गाँधी मैदान पटना से बख्तियारपुर	दिदारगंज, जेदुली, फतुहौ	बख्तियारपुर से गाँधी मैदान पटना	फतुहौ, जेदुली, दिदारगंज	55	आर.टी.ए. पटना
2	5348	गाँधी मैदान पटना से नौबतपुर	फुलवारीशरीफ, एम्स पटना	नौबतपुर से गाँधी मैदान पटना	एम्स पटना, फुलवारीशरीफ	24	आर.टी.ए. पटना
3	5349	गाँधी मैदान पटना से पालीगंज	फुलवारीशरीफ, एम्स पटना, नौबतपुर, विक्रम, दुल्हन बाजार	पालीगंज से गाँधी मैदान पटना	दुल्हन बाजार, विक्रम, नौबतपुर, एम्स पटना फुलवारीशरीफ	53	आर.टी.ए. पटना
4	5350	कादिरगंज से गया	पार नवादा, हिसुआ, मझवे, तुंगी, वजीरगंज, मानपुर	गया से कादिरगंज	मानपुर, वजीरगंज, तुंगी, मझवे, हिसुआ, पार नवादा	74	आर.टी.ए. पटना
5	5351	कबिलासपुर से मोहनिया	नुआव, दुर्गावती,	मोहनिया से कबिलासपुर	दुर्गावती, नुआव	30	आर.टी.ए. पटना
6	5352	नवगढ़ से मोहनिया	जैतपुर, भगवानपुर, भमूआ	मोहनिया से नवगढ़	भमूआ, भगवानपुर, जैतपुर	46	आर.टी.ए. पटना
7	5353	कतरीसराय से पटना	मायापुर, नोआवा, सारे, बिंद, सकशोहरा, हरनौत, दनियावां	पटना से कतरीसराय	दनियावां, हरनौत, सकशोहरा, बिंद, सारे, नोमा, मायापुर	115	आर.टी.ए. पटना
8	5354	आलमपुर से पटना	चेनारी, कुदरा, परसथुआ, कोचस, दिनारा, मलियाबाग, सोनवर्षा, जगदीशपुर, आरा	पटना से आलमपुर	आरा, जगदीशपुर, सोनवर्षा, मलियाबाग, दिनारा, कोचस, परसथुआ, कुदरा, चेनारी	209	आर.टी.ए. पटना
9	5355	अतरी से पटना	टेउसा, सरबहदा, खुदागंज, इस्लामपुर, एकंगरसराय, हिलसा	पटना से अतरी	हिलसा, एकंगरसराय, इस्लामपुर, खुदागंज, सरबहदा, टेउसा	109	आर.टी.ए. पटना
10	5356	केउर से पटना	खुदागंज, इस्लामपुर, एकंगरसराय, हिलसा	पटना से केउर	हिलसा, एकंगरसराय, इस्लामपुर, खुदागंज	75	आर.टी.ए. पटना
11	5357	कौरी से पटना	पालीगंज, दुल्हनबाजार, नौबतपुर, फुलवारीशरीफ, अनिशाबाद	पटना से कौरी	अनिशाबाद, फुलवारीशरीफ, नौबतपुर, दुल्हनबाजार, पालीगंज	65	आर.टी.ए. पटना
12	5358	खड़गपुर से पटना	गंगटा, लक्ष्मीपुर, जमुई, सिकंदरा, शेखपुरा, बरबीघा, बिहारशरीफ, फतुहा	पटना से खड़गपुर	फतुहा, बिहारशरीफ, बरबीघा, शेखपुरा, सिकंदरा, जमुई, लक्ष्मीपुर, गंगटा	230	आर.टी.ए. पटना
13	5359	पटना से खड़गपुर	जैतीपुर, बिंद, सकसोहरा, बरबीघा, शेखपुरा, सिकंदरा, जमुई, लक्ष्मीपुर, गंगरा	खड़गपुर से पटना	गंगरा, लक्ष्मीपुर, जमुई, सिकंदरा, शेखपुरा, बरबीघा, सकसोहरा, बिंद, जैतीपुर	220	आर.टी.ए. पटना

14	5360	बरदाहा से पटना	मुहगाव, मेसकौर, सीतामढ़ी, कथरा, मझवे मोड़, हसुआ नादरीगंज, राजगीर, सिलाव, नालंदा, बिहारशरीफ रा0पु0, चंडी	पटना से बरदाहा	चंडी, बिहारशरीफ रा0पु0, नालंदा, सिलाव, राजगीर, नादरीगंज, हसुआ, मझवे कोड़, कथरा, सीतामढ़ी, मेसकौर, मुहगाँव	117	आर.टी.ए. पटना
15	5361	सवानी से बिहारशरीफ	हरनौत, देवीसराय मोड़	बिहारशरीफ से सवानी	देवीसराय मोड़, हरनौत	43	आर.टी.ए. पटना
16	5362	जहानाबाद से बिहारशरीफ	बंधुगंज, एकंगरसराय	बिहारशरीफ से जहानाबाद	एकंगरसराय, बंधुगंज	58	आर.टी.ए. पटना
17	5363	बिक्रम से पाटलीपुत्रा जं0	नौबतपुर, दानापुर जं0, सगुना मोड़	पाटलीपुत्रा जंक्शन से बिक्रम	सगुना मोड़, दानापुर जं0, नौबतपुर	35	आर.टी.ए. पटना
18	5364	बिक्रम से दानापुर जं0	नौबतपुर, पटना एम्स	दानापुर से बिक्रम	पटना एम्स, नौबतपुर	30	आर.टी.ए. पटना
19	5365	समयागढ़ से बिहारशरीफ कचहरी	बिंद, रहुई	बिहारशरीफ कचहरी से समयागढ़	रहुई, बिंद	65	आर.टी.ए. पटना
20	5366	मौना से खजुराबाजार	राजपुर, तेतराढ़, अकौड़ीगोला, सासाराम, कुदरा, मोहनियां, दुर्गावती	खजुरा बाजार से मौना	दुर्गावती, मोहनियां, कुदरा, सासाराम, अकौड़ीगोला, तेतराढ़, राजपुर	111	आर.टी.ए. पटना
21	5367	करथ से खजुराबाजार	इटिमां, धनांव, मौना, राजपुर, तेतराढ़, अकौड़ीगोला, खन्डा, सासाराम, कुदरा, मोहनियां	खजुरा बाजार से करथ	मोहनियां, कुदरा, सासाराम, खंडा, अकौड़ीगोला, तेतराढ़, राजपुर, मौना, धनांव, इटिमां	111	आर.टी.ए. पटना
22	5368	संडा से खजुराबाजार	अम्बा, औरंगाबाद, डिहरी, सासाराम, कुदरा, मोहनियां, दुर्गावती	खजुरा बाजार से खंडा	दुर्गावती, मोहनियां, कुदरा, सासाराम, डिहरी, औरंगाबाद, अम्बा	148	आर.टी.ए. पटना
23	5369	औरंगाबाद से आरा	डिहरी रे0स्टे0, नासरीगंज, सवारी, बिहटा, खुटहॉ, पीरो	आरा से औरंगाबाद	पीरो, खुटहॉ, बिहटा, सवारी, नासरीगंज, डिहरी रे0स्टे0।	175	आर.टी.ए. पटना
24	5370	तेलाडी से दाउदनगर	कुदरा, शिवसागर, सासाराम, डिहरी, औरंगाबाद, ओबरा	दाउदनगर से तेलाडी	ओबरा, औरंगाबाद, डिहरी, सासाराम, शिवसागर, कुदरा	92	आर.टी.ए. पटना
25	5371	हसपुरा से मुंडेश्वरी	दाउदनगर, औरंगाबाद, डिहरी, सासाराम, कुदरा, मोहनियां, भुआ	मुंडेश्वरी से हसपुरा	भुआ, मोहनियां, कुदरा, सासाराम, डिहरी, औरंगाबाद, दाउदनगर	170	आर.टी.ए. पटना
26	5372	जमुई से पटना	सिकंदरा, चेवाड़ा, शेखपुरा, बरबीघा, कैलामोड़, बिंद, जैतीपुर	पटना से जमुई	जैतीपुर, बिंद, कैलामोड़, बरबीघा, शेखपुरा, चेवाड़ा, सिकंदरा	216	आर.टी.ए. पटना
27	5373	मानपुर से बिहारशरीफ खंदकरपर	पेड़का, सोएबापर	बिहारशरीफ खंदकरपर से मानपुर	सोएबापर, पेड़का	22	आर.टी.ए. पटना
28	5374	सकसोहरा से सरमेरा	बिन्द, बड़ी मलावॉ, गोपालबाद	सरमेरा से सकसोहरा	गोपालबाद, बड़ी मलावॉ, बिन्द	22	आर.टी.ए. पटना
29	5375	ससौर से बिहारशरीफ रा0पु0	चेरो, सरमेरा, गोपालबाद, बिन्द, रहुई, सोहसराय हाल्ट	बिहारशरीफ रा0पु0 से ससौर	सोहसराय हाल्ट, रहुई, बिन्द, गोपालबाद, सरमेरा, चेरो	49	आर.टी.ए. पटना

30	5376	जमुई मसौढ़ी चौक से बिहारशरीफ	कुंदरी, हलसी, तरहारी, शेखपुरा दल्लूमोड़, मायापुर, गिरियक	बिहारशरीफ से जमुई मसौढ़ी चौक	गिरियक, मायापुर, शेखपुरा दल्लूमोड़, तरहारी, हलसी, कुंदरी	116	आर.टी.ए. पटना
31	5377	कतरीसराय से पटना	मानपुर, धनुकी, पोरहा, इटौरा, कुमरीपर, बेनारमोड़, सकसोहरा, हरनौत, जैतीपुर	पटना से कतरीसराय	जैतीपुर, हरनौत, सकसोहरा, बेनारमोड़, कुमरीपर, इटौरा, पोरहा, धनुकी, मानपुर	120	आर.टी.ए. पटना
32	5378	कौआकोल से बाढ़	पकरीवर्मा, वारसलीगंज, नेपुरामोड़, सारे बिन्द, सकसोहरा	बाढ़ से कौआकोल	सकसोहरा, बिन्द, सारे, नेपुरामोड़, वारसलीगंज, पकरीवर्मा	96	आर.टी.ए. पटना
33	5379	शेखपुरा दल्लूमोड़ से पावापुरी	मायापुर, गिरियक	पावापुरी से शेखपुरा दल्लूमोड़	गिरियक, मायापुर	45	आर.टी.ए. पटना
34	5380	शेखपुरा दल्लूमोड़ से राजगीर	मायापुर, गिरियक, कलालीमोड़	राजगीर से शेखपुरा दल्लूमोड़	कलालीमोड़, गिरियक, मायापुर	51	आर.टी.ए. पटना
35	5381	नवादा से बिहारशरीफ रा0पु0	गिरियक	बिहारशरीफ रा0पु0 से नवादा	गिरियक	31	आर.टी.ए. पटना
36	5382	पटना से हुसैना	कुम्हरा, काजीचक, सरमेरा, गोपालबाद, बिंद, सकसोहरा, हरनौत, जैतीमोड़, दनियावां	हुसैना से पटना	दनियावां, जैतीमोड़, हरनौत, सकसोहरा, बिंद, गोपालबाद, सरमेरा, काजीचक, कुम्हरा	99	आर.टी.ए. पटना
37	5383	बिहारशरीफ रा0पु0 से नवादा बुधौल सदभावना चौक	गिरियक	नवादा बुधौल सदभावना चौक से बिहारशरीफ रा0पु0	गिरियक	36	आर.टी.ए. पटना
38	5384	चंडी से इस्लामपुर	बिहारशरीफ रा0पु0, परवलपुर	इस्लामपुर से चंडी	परवलपुर, बिहारशरीफ रा0पु0	58	आर.टी.ए. पटना
39	5385	सरैया से बक्सर	बलुआ, सलेमपुर, बिहियां चौरस्ता, शाहपुर, ब्रहमपुर, कृष्णाब्रहम, भोजपुर	बक्सर से सरैया	भोजपुर, कृष्णाब्रहम, ब्रहमपुर, शाहपुर, बिहियां चौरस्ता, सलेमपुर, बलुआ	86	आर.टी.ए. पटना
40	5386	अरियरी से पटना	शेखपुरा, बरबीघा, कैलामोड़, बिंद, जैतीपुर	पटना से अरियरी	जैतीपुर, बिंद, कैलामोड़, बरबीघा, शेखपुरा	181	आर.टी.ए. पटना
41	5387	मेहुस से पटना	शेखपुरा, बरबीघा, कैलामोड़, बिंद, जैतीपुर	पटना से मेहुस	जैतीपुर, बिंद, कैलामोड़, बरबीघा, शेखपुरा	116	आर.टी.ए. पटना
42	5388	कसार से पटना	शेखपुरा, बरबीघा, कैलामोड़, बिंद, जैतीपुर	पटना से कसार	जैतीपुर, बिंद, कैलामोड़, बरबीघा, शेखपुरा	130	आर.टी.ए. पटना
43	5389	घाटकुसुम्मा से पटना	शेखपुरा, बरबीघा, कैलामोड़, बिंद, जैतीपुर	पटना से घाटकुसुम्मा	जैतीपुर, बिंद, कैलामोड़, बरबीघा, शेखपुरा	130	आर.टी.ए. पटना
44	5390	शेखपुरा से बख्तियारपुर	बरबीघा, कैलामोड़, बिंद, सकसोहरा, हरनौत	बख्तियारपुर से शेखपुरा	हरनौत, सकसोहरा, बिंद, कैलामोड़, बरबीघा	89	आर.टी.ए. पटना
45	5391	शेखपुरा से मोकामा	बरबीघा, सरमेरा, घांसवरी	मोकामा से शेखपुरा	घांसवरी, सरमेरा, बरबीघा	41	आर.टी.ए. पटना



46	5392	शेखपुरा से बाढ़	बरबीघा, दरवेमदौर	बाढ़ से शेखपुरा	दरवेमदौर, बरबीघा	46	आर.टी.ए. पटना
47	5393	बिहारशरीफ रा0पु0 से नवादा बुधौल ब0प0	गिरियक	नवादा बुधौल ब0प0 से बिहारशरीफ रा0पु0	गिरियक	33	आर.टी.ए. पटना
48	5394	मखदुमपुर से बिहारशरीफ रा0पु0	सोनमा, हुलासगंज, इस्लामपुर, एकंगरसराय, परवलपुर	बिहारशरीफ रा0पु0 से मखदुमपुर	परवलपुर, एकंगरसराय, इस्लामपुर, हुलासगंज, सोनमा	60	आर.टी.ए. पटना
49	5395	बउलिया से कोइरीडीह	रोहतास, तिलौथु, डेहरी, वारुण, तेतरीमोड़	कोइरीडीह से बउलिया	तेतरीमोड़, वारुण, डेहरी, तिलौथु, रोहतास	218	आर.टी.ए. पटना
50	5396	आरा से सासाराम	पीरो, बिक्रमगंज, नोखा	सासाराम से आरा	नोखा, बिक्रमगंज, पीरो	100	आर.टी.ए. पटना
51	5397	चौधराईनचक से बिहारशरीफ	बाढ़, फतेहपुर, हरनौत स्टैंड	बिहारशरीफ से चौधराईनचक	हरनौत स्टैंड, फतेहपुर, बाढ़	57	आर.टी.ए. पटना
52	5398	बक्सर से गया	बिक्रमगंज, नासरीगंज, दाउदनगर, पंचरुखिया, देवहरा, गोह, कोच, पंचानपुर	गया से बक्सर	पंचानपुर, कोच, गोह, देवहरा, पंचरुखिया, दाउदनगर, नासरीगंज, बिक्रमगंज	165	आर.टी.ए. पटना
53	5399	बक्सर से गया	आरा, उदवन्तनगर, गड़हनी, अगिआंव, सहार, अरवल, बैदराबाद, शहर तेलपा, देवकुण्ड, उपहारा, गोह, कोंच पंचानपुर	गया से बक्सर	पंचानपुर, कोच, गोह, उपहारा, देवकुण्ड, शहर तेलपा, बैदराबाद, अरवल, सहार, अगिआंव, गड़हनी, उदवन्तनगर, आरा	215	आर.टी.ए. पटना
54	5400	आमस से आरा	शिवगंज, रफीगंज, गोह, उपहारा, देवकुण्ड, शहर तेलपा, बैदराबाद, अरवल, पाली, बिक्रम, नौबतपुर, पटना	आरा से आमस	पटना, नौबतपुर, बिक्रम, पाली, अरवल, बैदराबाद, शहर तेलपा, देवकुण्ड, उपहारा, गोह, रफीगंज, शिवगंज	238	आर.टी.ए. पटना
55	5401	भभुआ से गया	मोहनियां, कुदरा, सासाराम, डेहरी, नासरीगंज, दाउदनगर, पंचरुखिया, देवहरा, गोह, कोंच, पंचानपुर	गया से भभुआ	पंचानपुर, कोंच, गोह, देवहरा, पंचरुखिया, दाउदनगर, नासरीगंज, डेहरी, सासाराम, कुदरा, मोहनियां	195	आर.टी.ए. पटना
56	5402	बक्सर से गया	आरा, उदवन्तनगर, गड़हनी, अगिआंव, नारायणपुर, सहार, अरवल, बैदराबाद, मेहंदिया, दाउदनगर, पंचरुखिया, देवहरा, गोह, कोंच पंचानपुर	गया से बक्सर	पंचानपुर, कोंच, गोह, देवहरा, पंचरुखिया, दाउदनगर, मेहंदिया, बैदराबाद, अरवल, सहार, नारायणपुर, अगिआंव, गड़हनी, उदवन्तनगर, आरा	236	आर.टी.ए. पटना
57	5403	मसौढ़ी से फतुहां	पभेड़ी	फतुहां से मसौढ़ी	पभेड़ी	51	आर.टी.ए. पटना
58	5404	पटना बांकीपुर से सीतामढ़ी	पटना मी0पु0, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर (भगवान चौक), मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर जीरो माईल, रूनी सैदपुर, डुमरा चौक	सीतामढ़ी से पटना बांकीपुर	डुमरा चौक, रूनी सैदपुर, मुजफ्फरपुर जीरो माईल, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर (भगवान चौक), हाजीपुर, पटना मी0पु0,	134	आर.टी.ए. पटना

59	5405	लहेरियासराय से बांकीपुर पटना	दरभंगा, मुजफ्फरपुर जीरो माईल, मुजफ्फरपुर (भगवानपुर), मुजफ्फरपुर (दयालू चौक), हाजीपुर, पटना।	बांकीपुर पटना से लहेरियासराय	पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर (दयालू चौक), मुजफ्फरपुर (भगवानपुर), मुजफ्फरपुर जीरो माईल, दरभंगा।	131	आर.टी.ए. पटना
60	5406	तेलमर से हिलसा	मुसहरी, नगरनौसा, डियॉवां।	हिलसा से तेलमर	डियॉवां, नगरनौसा, मुसहरी।	39	आर.टी.ए. पटना
61	5407	बिहारशरीफ रा0पु0 से लसंडा	नूरसराय, चंडी, जैतीपुर, तुलसीगढ़।	लसंडा से बिहारशरीफ रा0पु0	तुलसीगढ़, जैतीपुर, चंडी, नूरसराय।	30	आर.टी.ए. पटना
62	5408	बिहारशरीफ रा0पु0 से लसंडा	नूरसराय, सलेमपुर, कचराभेड़िया।	लसंडा से बिहारशरीफ रा0पु0	कचराभेड़िया, सलेमपुर, नूरसराय।	28	आर.टी.ए. पटना
63	5409	भमुआ से कुदरा	सोनहन			18	आर.टी.ए. पटना
64	5410	कारगिल चौक क्यू शेल्टर से दानापुर बस स्टैण्ड	एकजीवीशन रोड मोड़, दुरदर्शन केन्द्र, बाटा, डाकबंगला चौराहा, आर ब्लॉक, इनकम टैक्स गोलम्बर, पटना वुमेन्स कॉलेज, बिहार म्यूजियम, हड़ताली मोड़, सेक्रेट्रीयट, ललित भवन, चिड़ियाघर, शेखपुरा मोड़, आई.जी.आई.एम.एस., आपियाना मोड़, जगदेवपथ मोड़, गोला रोड, आर.पी.एस.मोड़, सगुना मोड़	दानापुर बस स्टैण्ड से कारगिल चौक क्यू शेल्टर	सगुना मोड़, आर.पी.एस.मोड़, गोला रोड, जगदेवपथ, आपियाना मोड़, आई.जी.आई.एम.एस., शेखपुरा मोड़, चिड़ियाघर, ललित भवन, सेक्रेट्रीयट, हड़ताली, बिहार म्यूजियम, पटना वुमेन्स कॉलेज, इनकम टैक्स गोलम्बर, आर ब्लॉक, डाकबंगला चौराहा, बाटा, दुरदर्शन केन्द्र, एकजीवीशन रोड मोड़	17	आर.टी.ए. पटना
65	5411	कारगिल चौक क्यू शेल्टर से एम्स पटना	विस्कोमान भवन, दुरदर्शन केन्द्र, बाटा, डाकबंगला चौराहा, आर ब्लॉक, सप्तमूर्ती, ओल्ड सेक्रेट्रीयट, चितकोहरा, अनिसाबाद, खोजा ईमली, महाबीर कैंसर संस्थान, फुलवारी चौक, बाल्मी	एम्स पटना से कारगिल चौक क्यू शेल्टर	बाल्मी, फुलवारी चौक, महावीर कैंसर संस्थान, खोजा ईमली, अनिसाबा, चितकोहरा, ओल्ड सेक्रेट्रीयट, सप्तमूर्ती, आर ब्लॉक, डाकबंगला चौराहा, बाटा दुरदर्शन केन्द्र, विस्कोमान भवन	18	आर.टी.ए. पटना
66	5412	कारगिल चौक क्यू शेल्टर से एन.आई.टी.	बी.एन. कॉलेज, सिविल कोर्ट, पी.एम.सी.एच., खजांची रोड, पटना यूनिवर्सिटी	एन.आई.टी. से कारगिल चौक क्यू शेल्टर	पटना यूनिवर्सिटी, खजांची रोड, पी.एम.सी.एच., सिविल कोर्ट, बी.एन. कॉलेज,	3	आर.टी.ए. पटना
67	5413	पाटलीपुत्र बस टर्मिनल, बैरिया से मीठापुर बस पड़ाव	बैरिया, पहाड़ी मोड़, एन0एम0सी0एच0, राजेन्द्रनगर टर्मिनल, करबिगहिया	पटना से पाटलीपुत्रा बस टर्मिनल बैरिया	करबिगहिया, राजेन्द्रनगर टर्मिनल, एन0एम0सी0एच0, पहाड़ी मोड़, बैरिया	11	आर.टी.ए. पटना
68	5414	पाटलीपुत्र बस टर्मिनल, बैरिया से मीठापुर बस पड़ाव	बैरिया, जीरोमाईल, पहाड़ी मोड़, रामलखन पथ, जगनपुरा	पटना से पाटलीपुत्रा बस टर्मिनल बैरिया	जगनपुरा, रामलखन पथ, पहाड़ी मोड़, जीरोमाईल, बैरिया,	10	आर.टी.ए. पटना
69	5415	कथराही से राजगीर	रहुई, भागनबिगहा, बिहारशरीफ (रा0पु0 बस स्टैंड)	राजगीर से कथराही	बिहारशरीफ (रा0पु0 बस स्टैंड), भागनबिगहा, रहुई	54	आर.टी.ए. पटना
70	5416	नवादा सदभावना चौक से पटना	गिरियक, बिहारशरीफ, चंडी	पटना से नवादा सदभावना चौक	चंडी, बिहारशरीफ, गिरियक	111	आर.टी.ए. पटना

71	5417	पटना से बख्तियारपुर	दिदारगंज, जेतुली, फतुहॉ, बैकटपुर	बख्तियारपुर से पटना	बैकटपुर, फतुहॉ, जेतुली, दिदारगंज	65	आर.टी.ए. पटना
72	5418	सिउर से पटना	रोह, नवादा गुमटी, प्रसादवीघा, नवादाडिपो, बिहारशरीफ डिपो, बख्तियारपुर	पटना से सिउर	बख्तियारपुर, बिहारशरीफ डिपो, नवादा डिपो, प्रसादवीघा, नवादा गुमटी, रोह	158	आर.टी.ए. पटना
73	5419	महुडर से पटना	कौवाकोल, फुल्डी, रूपौ, रोह, नवादागुमटी, प्रसादवीघा, नवादाडिपो, बिहारशरीफडिपो, बख्तियारपुर	पटना से महुडर	बख्तियारपुर, बिहारशरीफडिपो, नवादाडिपो, प्रसादवीघा, नवादा गुमटी, रोह, फुल्डी, कौवाकोल	148	आर.टी.ए. पटना
74	5420	खुदागंज से बिहारशरीफ रा0पु0	मीनाबाजार, सिलाव भुई	बिहारशरीफ रा0पु0 से खुदागंज	सिलाव भुई स्टैण्ड, मीनाबाजार	90	आर.टी.ए. पटना
75	5421	इस्लामपुर से बिहारशरीफ रा0पु0	खुदागंज, मीनाबाजार, सिलाव भुई	बिहारशरीफ रा0पु0 से इस्लामपुर	सिलाव भुई स्टैण्ड, मीनाबाजार, खुदागंज	98	आर.टी.ए. पटना
76	5422	पालीगंज से जहानाबाद	चढ़ोस, सिगोरी, टाली किनारी	जहानाबाद से पालीगंज	टाली किनारी, सिगोरी, चढ़ोस	32	आर.टी.ए. पटना
77	5423	समयागढ़ से बाढ़ रे0स्टे0	पोखरपुर	बाढ़ रे0 स्टे0 से समयागढ़	पोखरपुर	30	आर.टी.ए. पटना
78	5424	बक्सर से पटना	इटाही, उनवॉस, धनसोई, दिनारा, मलियाबाग, सोनवर्षा, जगदीशपुर (नया टोला), आरा, मनेर, पटना ब0प0	पटना से बक्सर	पटना ब0प0, मनेर, आरा, जगदीशपुर (नया टोला), सोनवर्षा, मलियाबाग, दिनारा, धनसोई, उनवॉस, इटाही	138	आर.टी.ए. पटना
79	5425	सरमेरा से रामचन्द्रपुर बस स्टे0	बिन्द, रहुई, भागनबिघा	रामचन्द्रपुर बस स्टेण्ड से सरमेरा	भागनबिघा, रहुई, बिन्द	45	आर.टी.ए. पटना
80	5426	शेखपुरा जमालपुर से बिहारशरीफ	शेखपुरा सराय, मायापुर, गिरियक	बिहारशरीफ से शेखपुरा जमालपुर	गिरियक, मायापुर, शेखपुरा सराय	58	आर.टी.ए. पटना

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
(ह0) अस्पष्ट, उप-सचिव।

### पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

#### अधिसूचना

9 जनवरी 2023

सं0 वन भूमि-44/2021-43(ई0)/प०व०ज०प०—भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-FC-11/118/2021-FC दिनांक-29.06.2022 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन (संरक्षण) नियम 2022 अधिसूचित किया गया है।

2. वन (संरक्षण) नियम 2022 की कंडिका-8 के आलोक में राज्य सरकार के स्तर पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के खण्ड-(i), (ii) या (iii) के अधीन प्रस्तुत प्रस्ताव की पूर्णता की जाँच करने के लिए एक परियोजना जाँच समिति का गठन किया जाना विचाराधीन था। सम्यक विचारोपरांत वन (संरक्षण) नियम 2022 की कंडिका-8 के आलोक में परियोजना जाँच समिति का गठन निम्नांकित रूप से किया जाता है :-

(1)	(2)	(3)
1.	नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना	अध्यक्ष
2.	संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक	सदस्य
3.	संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी	सदस्य
4.	संबंधित जिला पदाधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि, (डिप्टी कलेक्टर के पद से नीचे का नहीं)	सदस्य

5.	उप वन संरक्षक/सहायक वन संरक्षक जो नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना के कार्यालय में पदस्थापित हो	सदस्य-सचिव
----	---	------------

3. परियोजना जाँच समिति की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम दो बार होगी और परियोजना जाँच समिति की बैठक की गणपूर्ति (कोरम) तीन होगी।

4. परियोजना जाँच समिति प्रस्तावों की जाँच के पश्चात राज्य सरकार को सिफारिश करेगी।

5. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
पूनम कुमारी, उप-सचिव।

**Office of The Commissioner, Magadh Division, Gaya**

**Office Order**

*The 11<sup>th</sup> January 2023*

No.VII-रा0-02/2018-143--In the light of proposal received from District Magistrate, Arwal vide letter no.- 119, dated- 19.12.2022 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No.	Officers Name	Designation	Remarks
1	Sri Amit Kumar	DCO-cum-Assistant Registrar, Cooperative Societies, Arwal	District Level

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya dt. 06.01.2023

By Order,  
(Sd.)/Illegible, Secretary to Commissioner,  
Magadh Division, Gaya.

*The 11<sup>th</sup> January 2023*

No. XI-K-रा0-01/2019-144--In the light of proposal received from District Magistrate, Gaya vide letter no.- 1878, dated- 19.12.2022 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No.	Officers Name	Designation	Remarks
1	Sri Vinod Duhan	DDC, Gaya	District Level
2	Sri Parmanand Kumar	DLAO, Gaya	District Level

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya dt. 06.01.2023

By Order,  
(Sd.)/Illegible, Secretary to Commissioner,  
Magadh Division, Gaya.

*The 11<sup>th</sup> January 2023*

No. XI-C-रा0-06/2019-145--In the light of proposal received from District Magistrate, Jehanabad vide letter no.- 318, dated- 03.12.2022 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No.	Officers Name	Designation	Remarks
1	Sri Arvind Kumar Chaudhary	CO, Ghoshi	Circle Ghoshi Level
2	Sri Satyendra Kumar Prasad	DCO, Jehanabad	District Level
3	Sri Rakesh Ranjan	CO, Makhdumpur	Circle Makhdumpur Level
4	Miss Nilee Yadav	CO, Kako	Circle Kako Level

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya dt. 06.01.2023

By Order,  
(Sd.)/Illegible, Secretary to Commissioner,  
Magadh Division, Gaya.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 46—571+25-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

## भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और  
नियम आदि।

पटना उच्च न्यायालय

शुद्धि

5 नवम्बर 2022

सं० 65985-66014---न्यायालय के अधिसूचना संख्या 407 नि० दिनांक 18.12.2003 जो ज्ञापांक संख्या 10311-28 दिनांक 19.12.2003 के द्वारा निर्गत किया गया था, जो परीक्ष्यमान असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के रूप में पदस्थापना से संबंधित था, को इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में संशोधित किया जाता है—

1. उपर्युक्त अधिसूचना के क्रम सं०- 05 पर पदाधिकारी के नाम को श्री गोपाल जी (Sri Gopal Jee) के जगह पर श्री गोपाल जी (Sri Gopal Ji) पढ़ा जाए।  
उपर्युक्त अधिसूचना के शेष प्रविष्टियाँ यथावत् रहेंगी।

उच्च न्यायालय के आदेश से,  
रूपेश देव, महानिबंधक।

*The 5<sup>th</sup> November 2022*

No. 65985-66014---Court's Notification no. 407A dated 18.12.2003 issued vide memo no. 10311-28 dated 19.12.2003, which relates to posting of persons as Probationary Civil Judge (Junior Division) is hereby modified as under:-

1. The officer named at serial no. 05 of aforesaid notification be read as "Sri Gopal Ji" in place of "Sri Gopal Jee".

Other entries of the aforesaid notification shall remain intact.

**By Order of the High Court,**  
Rupesh Deo, **Registrar General.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 46—571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>

## भाग-9-ख

### निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि ।

#### सूचना

No. 110—I Mithilesh Kumar Mishra, (EX-NAVY) S/O-Sri Srikant Mishra, Vill+PO-Singhia PS-K. Nagar, Dist. Purnea Bihar, As declare vide affi. NO-5064/22 dated on 11/10/22. my Son's name wrongly written in the Naval record as ANKIT MSHRA. But in my service discharge book and in all his other documents his name is written ANKIT KUMAR MISHRA. My Son's real name is ANKIT KUMAR MISHRA. This is useful for all purpose.

Mithilesh Kumar Mishra.

No. 111—I, MADHULATA Kumari W/o Mithlesh Kumar Mishra , Village + Post Singhia P.S K Nagar, Ditt- Purnea, Pin- 854304 , Bihar As declare vide affi No. 976 dt. 20-12-2022. My husband is retired from Indian navel service (Navy) . In my name is wrongly written as MADHULATA MISHRA. But in my all educational and other Documents my name is written as MADHULATA KUMARI. MY real name is useful to all purposes.

MADHULATA Kumari.

सं० 123—मैं Deeksha (दीक्षा) पुत्री—नरेन्द्र कुमार, पत्नी—कुमार अनुभव, निवास—पलैट नं०—403, शिवा इन्कलेव, कंकरबाग, थाना—कंकरबाग, पटना—20 (बिहार) शपथ पत्र सं०—18506/ता: 16.12.2022 द्वारा यह घोषणा करती हूँ कि अब मैं दीक्षा वर्मा (Deeksha Verma) के नाम से जानी एवं पहचानी जाऊंगी।

Deeksha (दीक्षा)।

No. 124--I Santosh Kumar, S/O-Sri Nageshwer Singh, Resident of House No.-A/16, Sri Ram Path, New Punaichak, Patna-800023 hereby declare vide Affidavit No.-19416, Dated 09.01.2023 that my daughter Aasmi is known as Aasmi Bhardwaj.

Santosh Kumar.

सं० 126—मैं विनोद प्रसाद सिंह (Vinod Prasad Singh) पिता—बालेश्वर प्रसाद, ग्राम—जियनबीघा, पो०—जियनबीघा, थाना—शेखपुरा, जिला—शेखपुरा, बिहार का निवासी हूँ। शपथ पत्र सं०—383 तिथि 18/11/2022 द्वारा सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र दीपक पटेल (Deepak Patel) ) के केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा निर्गत अंक प्रमाण पत्र (Mark Sheet) ) सं० 1128137 में मेरा नाम विनोद प्रसाद सिन्हा (Binod Prasad Sinha) अंकित हो गया है जो कि गलत है पंजीयन संख्या (Registration Slip ) एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र में विनोद प्रसाद सिंह (Binod Prasad Singh) दर्ज है जो सही है अब मैं विनोद प्रसाद सिंह के नाम से (Binod Prasad Singh) से ही जाना व पहचाना जाऊंगा।

विनोद प्रसाद सिंह।

No. 127----I Md. Tarique Anwar S/o Late Firoj Ahmad R/o Khan Market, Qurban Road, Bhola Chowk, Chandwara, P.S.-Town Muzaffarpur, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per Aff. No.-24 dt 02.01.23 that my name is written in my son's Shaghil Anwer. Matriculation Certificate Year 2021. Roll No.- 22198825 and Registration No. P121/65256/0126 is Tarique Anwar which is wrong. My correct name is Md. Tarique Anwar and now. I will be known as Md. Tarique Anwar.

Md. Tarique Anwar.

No. 128---I Farahnaz Azami W/o Md. Tarique Anwar R/o Khan Market, Qurban Road, Bhola Chowk, Chandwara, P.S.- Town Muzaffarpur, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 23 dt 02.01.23 that my name is written in my Son's Shaghil Anwer Matriculation Certificate Year 2021, Roll No. 22198825 and Registration No. P121/65256/0126 is Farahnaz which is wrong. My correct name is Farahnaz Azami and now I will be known as Farahnaz Azami.

Farahnaz Azami.

No. 129---I Nasreen Nigar w/o- Abdur Rahman R/o- village- Chunimari Chikabari, Khodganj P.S-Bahadurganj, Kishanganj, Bihar, do hereby solemnly affirm and declare as per affidavit no.- 94 dt. 02/01/23 that my name is written in my daughter's Nazma Rahmani matriculation certificate 2013; Roll No.-7125492; Registration No.- P113/50210/0003 is Nasreen Khanam which is wrong name. My correct name is Nasreen Nigar and now I will be known as Nasreen Nigar.

Nasreen Nigar.

सं० 130—मैं सिमरन कुमारी पिता राज कुमार, निवास—ग्राम—सोना पो०—पिपलावन, थाना—नौबतपुर, जिला—पटना—801109 शपथपत्र सं० 53 ता० 04.01.23 द्वारा यह घोषणा करती हूँ कि मेरा सही नाम SIMRAN KUMARI है। गलती से सर्टिफिकेट एवं एडमिट कार्ड में SIMRAN KUAMRI हो गया है।

सिमरन कुमारी।

No. 131---I Shivam Shukla, S/o-Shriram Shukla, R/o-New Dilliyan, behind of Church Road, ward no 21, Dehri P.O.+P.S.-Dehri, Distt-Rohtas, state-Bihar, Pin no-821307 do solemnly declare that Vide affidavit No 4711 date - 20-05-2022 That in Adhar card, Pan card, Bank Account Passport and all my educational Certificate as SHIVAM. That I will know as SHIVAM SHUKLA (Correct Name) from now on.

Shivam Shukla.

No. 134---I Trisha Srivastava D/o Dharmendra Kumar Srivastava R/o Near Hanuman Mandir, Sainik Colony, Gola Road, Dananpur, Patna -801503, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.2624 dt. 23.01.23 that my name is mentioned in Adhar, Secondary and Higer Secondary Certificate Is Trisha which is wrong and in Birth Certificate is Trisha Srivastava Wich is correct. From now I will be know as Trisha Srivastava and it may be corrected in my all documents.

Trisha Srivastava.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 46—571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>



# बिहार गजट का पूरक(अ0) प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० 5 / डी०-04-10-02 / 2017-133

जल संसाधन विभाग

संकल्प

16 जनवरी 2023

मंत्रिपरिषद की दिनांक 13.01.2023 को सम्पन्न बैठक की मद संख्या-22 में लिए गये निर्णय के आलोक में जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत राज्य को बाढ़ की विभीषिका से बचाने हेतु बाढ़ संघर्षात्मक, कटाव निरोधक कार्य, सिंचाई से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं का ससमय कार्यान्वयन नहरों से पटवन हेतु जलश्राव को उसके अंतिम छोर तक पहुँचाने एवं संचालित कार्य की गुणवत्ता का सतत् अनुश्रवण के क्रम में तकनीकी परामर्श हेतु मुख्यालय स्तर पर अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता स्तर के समकक्ष तकनीकी परामर्शी (वेतन स्तर-13ए/14 में) का एक गैर संवर्गीय पद प्रशासी पदवर्ग समिति की दिनांक 26.12.2022 के बैठक की कार्यवाही के अनुशंसा के आलोक में पत्रांक-12142 दिनांक 27.12.2022 के मद संख्या-18 द्वारा दिनांक 20.08.2022 से दो वर्षों के लिए अस्थायी रूप से सृजित किया जाता है।

2. उपर्युक्त सृजित पद का व्यय स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष-3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएँ, उप मुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-090-सचिवालय, उपशीर्ष-0009-जल संसाधन विभाग, विपत्र कोड 49-3451000900009, विषय शीर्ष-28 02-संविदा सेवाएँ के अन्तर्गत भारित होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राम विलास दुबे, संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 46-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>